

@Shajahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 22.03.2021

थाना जलालाबाद पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड

भारी मात्रा में निर्मित/ अर्द्धनिर्मित अवैध असलाह व असलाह बनाने के उपकरणों सहित शांति अभियुक्त बलराम को किया गिरफ्तार

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्री ब्रह्मपाल सिंह क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

इसी क्रम में दिनांक 21.03.2021 की रात्रि करीब एक बजे बजे थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त बलराम सिंह उर्फ बबलू पुत्र सौदान सिंह नि० शाहपुर जनपद शाहजहाँपुर को **ग्राम शाहपुर में उसके घर में अवैध असलाह फैक्ट्री चलाते हुए गिरफ्तार किया गया।** मौके से भारी मात्रा में निर्मित व अर्द्धनिर्मित अवैध असलाह व असलाह बनाने के उपकरण बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पर मु०अ०स० 204/2021 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यक्षेत्र

अभियुक्त शांति किस्म का अपराधी है, उक्त अभियुक्त हत्या का प्रयास, वन्यजीवों की तस्करी आदि अपराधों में संलिप्त रहा है तथा पूर्व में जेल भी जा चुका है। यह अवैध शस्त्र बनाकर बनाकर आस पास के क्षेत्रों में सप्लाई करता है तथा इसी से अवैध धन अर्जित करता है। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता

1-बलराम सिंह उर्फ बबलू पुत्र सौदान सिंह नि० शाहपुर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण

1- 01 तमचा 315 बोर

2- एक तमचा अधबना 315 बोर

3-06 जिन्दा कारतूस (02-315 बोर, 04-12 बोर)

4-26 खोखा कारतूस

5-02 बंदूक की लकड़ी की चाप

6- सुम्मी, छैनी, हथौडा आदि भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 290/1999 धारा 307 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
2. मु०अ०स० 41/20 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
3. मु०अ०स० 42/20 धारा 9/51 वन्यजीव संरक्षण अधि० थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
4. मु०अ०स० 641/18 धारा 324/323/506 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
5. मु०अ०स० 45/20 धारा 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
6. मु०अ०स० 204/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
7. मु०अ०स० 86/17 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु०अ०स० 204/2021 धारा 3/5/25 आयुद्ध अधिनियम थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद श्री जसवीर सिंह
2. उ०नि० श्री विनोद कुमार
3. मु०अ० रणवीर सिंह
4. मु०अ० देवेन्द्र सिंह
5. का० ज्ञानेन्द्र सिंह
6. का० अभिलाष अवस्थी

